प्रमाण पत्र(ख)/certificate 'B'

(उन रोगियों के मामले में भरा जाए जिन्हें इलाज के िए अस्पताल में भर्ती किया गया हो) (To be completed in the case of patients who are admitted to hospital for treatment)

नी/पुत्र/पुत्री श्री को Certificate granted to Mrs./Mr./Miss e/son/daughter of Mr. ployed in the. (अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए) (To be signed by the Medical Officer-in-Charge of the case at the hospital) मैं, डा॰ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं :-	edi dai yalio
who was a supplemental and the supplemental and th	e iralisere suseriente (n nominissos no betegor
भाग 'क'/PART 'A' (अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए) (To be signed by the Medical Officer-in-Charge of the case at the hospital) मैं, डा॰ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं :—	ouste (Entre (1 notationos no betegar
भाग 'क'/PART 'A' (अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए) (To be signed by the Medical Officer-in-Charge of the case at the hospital) मैं, डाo	notallusias nu bettepar
(अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए) (To be signed by the Medical Officer-in-Charge of the case at the hospital) मैं, डाo	
(To be signed by the Medical Officer-in-Charge of the case at the hospital) मैं, डा॰ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं :-	
मैं, डा॰ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं :-	
I, Drhereby certify:—	
(क) कि रोगी को मेरे परामर्श के परामर्श से अस्पताल में	मं भर्ती किया गर
(चिकित्सा अधिकारी का नाम)	
(a) That the patient was admitted to hospital on my advice of	
(ख) कि रोगी इलाज के लिए में रहा है व	A A
मेरे द्वारा नुस्खे में दी गई निम्नलिखित औषधे रोगी की हालत में सधार लाने के लिए (ग्रांगीर का से स्वापन को से	111 + 0
थी, ये औषध अस्पताल में	पारतेत जेमिन
(अस्पताल का नाम)	STEAM (MINO)
देने के लिए स्टाक नहीं की जाती और उसमें ये पेटेंट (एकायत) योग शामिल नहीं हैं जिनके लिए समान चिकि	त्सा मान के सस
उपलब्ध हैं। न ही वे योग जो मूलतः खाद्य, श्रृंगार सामग्री अथवा निःसंक्रामक हैं।	in the laste ha
(b) That the patient has been under treatment at	an
the undermentioned medicines prescribed by me in this connection were essential for the recovery/prevention of	sarious datariara
the condition of the patient. The medicines are not stocked in the	serious deteriora
Island at the	
	(Name
for supply to private patients and do	(Name not include propi
the Hospital)	not include propi
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants.	not include propi
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. औषधों का नाम कीमत औषधों का नाम	not include propi
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants.	not include propi
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. औषधों का नाम Name of Medicines	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. औषधों का नाम Name of Medicines Price Name of Medicines	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अौषधों का नाम Name of Medicines 7. 8.	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. औषधों का नाम Name of Medicines 7.	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अौषधों का नाम Name of Medicines 7. 8.	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अपैष्ट्री का नाम Name of Medicines 7. 8. 9.	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अोषघों का नाम Name of Medicines 7. 8. 9. 10. 11.	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अभिष्यों का नाम Name of Medicines 7. 8. 9.	not include propi remarily food toil कीमत
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अभैष्यों का नाम Name of Medicines 7. 8. 9. 10. 11. 12.	not include propi remarily food toil कीमत Price
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अभैषधों का नाम Name of Medicines 7. 8. 9. 10. 11. 12. (ग) कि दिए इंजेक्शन रोगक्षमता या रोग—निरोध के लिए थे/नहीं थे। (c) That the injections administered were were not for immunising or prophylactic gurposes.	not include propi remarily food toil कीमत Price
the Hospital) preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available nor preparations which are p disinfectants. अभैष्यों का नाम Name of Medicines 7. 8. 9. 10. 11. 12.	not include propi

(७) कि जिन एक्सर प्रयागराला जाय आदि के लिए	रुपये खर्च किए थे वे आवश्यक में किए गए थे।
थ आर व मरा सलाह स	
	e of Rswas incurre
were necessary and were undertaken on my advice at	
	(Name of the Hospital or Laboratory)
(च) कि मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डा॰	के पास भेजा थ
अौर	का नियमों के अनुसार यथापेक्षित आवश्यव
(राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिक	ारी का नाम)
अनुमोदन प्राप्त कर दिका गया था।	
	for specialism
consultation and that the necessary approval of the	
(N	ame of the Chief Administrative Medical Officer of the State)
required under the rules was obtained.	THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
er and the second of the second of the second of	
(Indexed 18) is a supposed with the	अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के स्नाक्षर
— इ. तरक विभिन्न पर्क करन	और पदनाम
— proper years — c	Signature and Designation of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital
do that the a strate a free a	
भाग 'ख	/PART'B'
	To arrives where Mitarios in Lettings sew tredon will fulfill (6)
Legal Chapter (Anna)	अस्पताल में रहा है और कि विशे
मै प्रमाणित करता हू कि रोगी इलाज के लिए	अस्तयाल में रहा ह आर कि विश
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए	रुपये खर्च किए गये १
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए	रुपये खर्च किए गये धे
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए बए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी	रूप से खराब होने से रोक ने के लिए अनिवार्य थी।
चा रिकाओं को जिन सेवाओं के लिए बुए संलग्न बिल तथा रसी दें, वे रोगी की हाल त को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	रुपये खर्च किए गये थे र रूप से खराब होने से रोक ने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th
चा रिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हाल त को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे र रूप से खराब होने से रोक ने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred <i>vide</i> bills an
चा रिकाओं को जिन सेवाओं के लिए बुए संलग्न बिल तथा रसी दें, वे रोगी की हाल त को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	रुपये खर्च किए गये थ र रूप से खराब होने से रोक ने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred <i>vide</i> bills an
चा रिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हाल त को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे र रूप से खराब होने से रोक ने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred <i>vide</i> bills an
चा रिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हाल त को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे र रूप से खराब होने से रोक ने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred <i>vide</i> bills an
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an idelerioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and incurred vide vide bills and incurred vide vide vide vide vide vide vide vi
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and incurred vide vide bills and incurred vide vide vide vide vide vide vide vi
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED Countersigned Counte
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gy संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs chers attached, were essential for the recovery/prevention of serious	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED Countersigned Counte
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए बुए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED चिकित्सा अधीक्षर Medical Superintender अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED विकित्सा अधीक्षर Medical Superintender Hospital अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED चिकित्सा अधिकार अस्पताल Hospital अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the vices of the special nurses, for which and expenditure of Rs	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED चिकित्सा अधिकार अस्पताल Hospital अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए get संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED चिकित्सा अधिकारी विकित्सा अधिकारी अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए gए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप में खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED चिकित्सा अधीक्षर Medical Superintender Hospital अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए बए संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that th was incurred vide bills an अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital COUNTERSIGNED चिकित्सा अधीक्षर Medical Superintender अस्पताल में रहा है और कि उसे ज
चारिकाओं को जिन सेवाओं के लिए get संलग्न बिल तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभी I certify that the patient has been under treatment at the	र रूप से खराब होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। hospital and that the was incurred vide bills and deterioration in the condition of the patient. अस्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital (COUNTERSIGNED चिकित्सा अधिकार अधिकार के स्राप्ताल में रहा है और कि उसे ज

N.B.:—Certificate not applicable should be struck off. Certificate 'B' is compulsory and must be filled in by the medical Officer in all cases. प्रभासमुटेकोल/MGIPTKoI-8 Civil/2006-07-(C-8)-12-6-06-3,00,000.